

Ramsons Projects Limited

CIN: L74899DL1994PLC063708

Corp. Office: Unit 501, 05th Floor, SAS Tower, Tower-B,

Sector- 38, Gurugram – 122001, Haryana

Phone: +91 124 4679000

Email: corprelations@ramsonsprojects.com

Website: www.ramsonsprojects.com

Ref No. 2025\RPL\72

May 27, 2025

To, General Manager Department of Corporate Services BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001

Sub: Newspaper publication of 31st AGM notice of the Company.

Ref.: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements)

Regulations, 2015.

Dear Sir/ Ma'am,

In pursuance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisements published on Tuesday, May 27, 2025, in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) providing informing about the following:

- 31st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, June 19, 2025, at 12:00 P.M.
- Remote E-voting facilities offered to the Shareholders and cut-off date.
- Book Closure Dates for the purpose of 31st Annual General Meeting.

Further, same has also been uploaded on the website of the Company. Referenced link shall be www.ramsonsprojects.com.

Kindly take the same on record.

Thanking You,

For and on behalf of **Ramsons Projects Limited**

Ashwarya Maheshwari Company Secretary cum Compliance Officer Mem. No. A71660

Encl: Newspaper publication

FINANCIAL EXPRESS

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI

4™ FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001 OA. 172 / 2024 CENTRAL BANK OF INDIA Applicant

(1) M/S SHIVAM HANDLOOM INDUSTRIES

M/S SHIVAM HANDLOOM INDUSTRIES

Through Its Prop. Shri Chander Prakash B-225, Gali No.3, Sonia Vihar, Delhi-110094. Also At: M/s Shivam Handloom Industries

Through Its Proprietor Shri Chander Prakash V-565/1, Arvind Mohalla Chaudhary Fatey Singh Marg, Ghonda, Delhi-110053. (2) SHRI CHANDER PRAKASH

H. No.89, Gali No.8, Balaji Temples, Sabha Pur, North East Delhi-110049. Also At: SHRI CHANDER PRAKASH PROPRIETOR M/S SHIVAM HANDLOOM INDUSTRIES, Plot No.40 and 41 Khasra No.854 Aman City Village Meerpur Hindu Pargana Tehsil Loni Ghaziabad, U.P.-201102.

(3) SEEMA B-225, Gali No.3, Sonia Vihar, Delhi-110094.

Whereas the above - named applicant has instituted a case for recovery of Rs.70,23,426/- (Rupees Seventy Lakh Twenty Three Thousand Four Hundred Twenty Six Only) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld Registrar on 06.10.2025 at 10:30 A.M. IST (for further details kindly visit DRT website: www.etribunal.gov.in Phone Number 011-23748473).

Take notice that in case of your failure to appear on the above-mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. All the matters will be taken up through Video Conferencing and for that

(i) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" Application

(ii) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing gua cases to be taken by Registrar / Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "https://drt.gov.in" under the Public Notice Head.

(iii) In any exigency qua that, the Advocates / Litigants can contact the concerned official at Ph. No.011-23748473.

Given under my hand and seal of the Tribunal on this 07" May, 2025. Respondent may contact under mention Phone number for further enquiry.

Ld. Registrar, DRT-I, New Delhi. Phone No.: 011-23748473.



By Order of this Tribunal **Assistant Registrar**

Form No. INC-26 Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of **TRISTAR AERODYNAMICS PRIVATE LIMITED** (CIN: U29192DL2003PTC119447) having its Registered Office at

26/1 WEST PATEL NAGAR, NEW DELHI, Delhi, India - 110008 .. Applicant Company / Petitioner NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 19th May, 2025 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar

Pradesh" Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 (www.mca.gov.in) by filing investor **complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned

26/1 WEST PATEL NAGAR, NEW DELHI, Delhi, India - 110008 For & on behalf of TRISTAR AERODYNAMICS PRIVATE LIMITED

VINAY BAHREE (DIRECTOR)
DIN: 01305239 **Date**: 26.05.2025 Place: New Delhi

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office: No. 167-169, 2nd Floor. Anna Salai, Saidapet, Chennai- 600015 ALM - Mr. Pramed Chand: +91 99903 38759 PUBLIC NOTICE OF PHYSICAL POSSESSION OF IMMOVABLE PROPERTY Mr. Jitendra Sharma .. borrower 2. Mr.

Sushma Sharma ..co Borrower House No. 66/ sharma Nagar Civil Line Saket Meerut Present Address: Rat No. 10, 3rd Floor Hriday Apartment Jagganath Puri Delhi Road T.p. Nagar Meerut-250001. LAN No. UP/KNP/MRUT/A000000700. Whereas Vide Order Dated 27.02.2025 Passed By Additional District Magistrate Revenue, Meerut, Uttar Pradesh, The Physical Possession Of The Property Being All That Piece And Parcel Of "a lesidential Flat No. 10, 3rd Floor Hriday Apartment Jagganath Puri Delhi Road T.p. Nagar Meerut-250001." Has Been Taken Over By M/s Hinduja Housing Finance Ltd. On 20.05.2025. The Borrowers in Particular And The Public II General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Property And Any Dealings With The Property Will Be Subject To The Charge Of M/s Hinduja Housing Finance Ltd.

Date: 27/05/2025 Place: Delhi Authorised Officer- Hinduja Housing Finance Limited

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

All Advertisement S 0120-66





Registered Office: at Gateway Building, Appollo Bunder, Mumbai- 400 001. Corporate Office: at B Wing, 3rd Floor, Agastya Corporate Park, Piramal Amiti Building, Sunder Baug Lane, Kamani Junction, Kurla West Mumbal- 400 070.

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF SARFAESI Act, 2002

Defendants

Whereas you the below mentioned Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagors have availed loans from Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd by mortgaging your immovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as Non-performing Asset, whereas Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand notice calling upon the Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's/Mortgagors as

Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/Mortgagor	Loan Account No. & Loan Amount	of the Security to be enforced	Date of NPA & Demand Notice date	Amount Due in RsJ- As on
M/s. Trilok Chand & Company Proprietorship of Mr. Trilok Chand Goyal. (Borrower) M/s. Mohindra & Company Proprietorship of Mrs. Sneha Lata Goyal. (Co-Borrower 1) Mr. Aditya Goyal (Co-Borrower 2)	(Rupees One Crore Thirty One Lakh Twenty Six Thousand Two	Mortgaged Immovable Property details: ITEM NO-1 – All that piece and parcel of Commercial Property having House Tax of Commercial Shop No. 2832, Property ID – RW14U00603AA, area measuring 92.00 Sq. Yd, Situated at Katla bazaar, Rewari, District- Rewari, Haryana - 123106. Bounded as Follows: On or towards East by: Passage/Gali, On or towards West by: Road/Rasta, On or towards North by: Gali/Rasta, On or towards South by: Prop/Shop of Kedar Nath Kanhiya Lal.	16.05.2025 Demand Notice date: 23.05.2025	Rs. 1,30,10,868.81/- (Rupees One Crore Thirty Lakt Ten Thousand Eight Hundred Sixty Eight and Eighty One Paise Only) As on 22.05.2025

Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagor as mentioned in Column No.1, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown in column No.5, against all the respective Borrower/Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.5. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd shall be constrained to take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described in Column No.3. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd against the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/ prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior

consent of Secured Creditor. Date: 27.05.2025 Sd/- Authorised Officer Place: Rewari, Haryana. Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd.

In the matter of RUNGTA MANAGEMENT CONSULTANTS LLP having its registered office situated at 5-B/4, Basement Block No. 4, Plot No. 5-B, Near Old Rajinder Nagar, Ganga Ram Hospital Marg,

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/ shifting of the registered

(Rs.in lakhs, except per share data)

Place: New Delhi Date: 26" May, 2025

Before Central Government

Registrar of companies, NCT of Delhi & Haryana In the matter of the LLP Act, 2008, Section 13(3) of LLP Act, 2008, and Rule 17 of the LLP Rules, 2009

Rajender Nagar, Central Delhi, New Delhi -110060, Delhi, India, (LLPIN: ACI-4801)

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make an Application to the Registrar of the Company NCT of Delhi & Haryana under Section 13(3) of LLP Act. 2008 seeking permission of change its registered office from "NCT of Delhi" to the "State of Haryana".

office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her. objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the office of the Registrar of Companies NCT of Delhi & Haryana and a copy of the same to the LLP at its registered office at the address mentioned above within twenty one days from the date of publication of this Notice. On behalf of the Board

For Rungta Management Consultants LLP

Sunita Rungta Designated Partner

ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED

CIN: L74899HR1995PLC053860

Regd. Office: Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal-121102, Haryana Phone: +91-1275-280111 (50 Lines), Fax: +91-1275-280133, Website: www.ace-cranes.com, Email Id: cs@ace-cranes.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31³¹ MARCH, 2025.

			Standalone				Consolidated				
2	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended			Year Ended		
S. No.		31.03.2025 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1,	Total Income from Operations	95925	87310	83579	332032	291154	96099	87511	83584	332705	291380
2.	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	16050	14493	13283	54311	43323	16089	14949	13319	54912	43394
3.	Net Profit for the period before tax (After Exceptional and Extraordinary items)	16050	14493	13283	54311	43323	16089	14949	13319	54912	43394
4,	Net Profit for the period (After tax, Exceptional and Extraordinary items)	11841	10715	9815	40364	32764	11856	11168	9845	40924	32820
5.	Total Comprehensive Income (after tax)	11814	10715	9777	40337	32726	11816	11168	9788	40922	32796
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 2/- each)	2382	2382	2382	2382	2382	2382	2382	2382	2382	2382
7.	Earnings Per Share (Face value of Rs. 2/- each) 1. Basic:	9,95	9.01	8.25	33.92	27.52	9.97	9.38	8.27	34.39	27.56
	2. Diluted:	9.95	9.00	8.25	33.91	27.52	9.96	9.38	8.27	34,37	27.56

Place: Faridabad

Date: 26" May, 2025

(a) The above is an extract of the detailed format for the quarter and year ended on 31" March, 2025 filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and financial year Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on the Company's website www.ace-cranes.com. (b) The audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 are reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meeting held on 26"

May, 2025. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion. (c) The Board at its meeting held on 26" May, 2025 has recommended subject to approval of shareholders a dividend of Rs. 2.00 (100%) per share on fully paid up equity share of Rs.2/- each for the year ended

March 31, 2025 (d) Earnings per share is not annualized for the quarter ended 31st March, 2025, 31" December, 2024 and 31" March, 2024.



For Action Construction Equipment Limited Vijay Agarwal

Chairman & Managing Director

PPFAS Mutual Fund

PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhayan, Ramnath Goenka Marg. 230 Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra, INDIA. Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590. E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com CIN No: - U65100MH2011PTC220623

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION OF **PPFAS MUTUAL FUND**

Retirement of Mr. Dhaval Desai as an Independent Director from the Board of PPFAS **Trustee Company Private Limited**

Investors/Unitholders of PPFAS Mutual Fund are hereby informed that Mr. Dhaval Desai has retired as an Independent Director from the Board of PPFAS Trustee Company Private Limited, effective April 30, 2025. Consequently, all references to Mr. Dhaval Desai in the Statement of Additional Information (SAI") shall stand deleted.

This notice cum addendum forms an integral part of the SAI. All other features, terms and conditions mentioned in the SAI remain unchanged.

For PPFAS Asset Management Private Limited

(Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: May 26, 2025

Sd/-Director

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



RAMSONS PROJECTS LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063708 Reg. Off.: 201, Empire Apartments, First Floor, Sultanpur, Gadaipur, Southwest Delhi, New Delhi - 110030, India Corp. Off.: Unit 501, 5th Floor, SAS Tower, Tower B, Sector-38, Gurugram - 122001, Haryana, India

NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO **CONFERENCING / OTHER AUDIO - VISUAL MEANS REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Phone No. 0124-4679000. Email: corprelations@ramsonsprojects.com

Website: www.ramsonsprojects.com

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the Members of RAMSONS PROJECTS **LIMITED** will be held on Thursday, June 19, 2025 at 12:00 P.M., through two way Video Conferencing ('VC') facility / other audio visual means ('OAVM') only, in compliance with all applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 in relation to "Clarification on holding of Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")" read with Circular 20/2020 dated May 5, 2020, No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), to transact the business as set out in the Notice of the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast at https://instameet.in.mpms.mufg.com/. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of Quorum under Section 103 of Companies Act. 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the 31st AGM and the standalone financial statements for the financial year 2024-25, along with Boards' Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) on May 23, 2025. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular and in furtherance of Go-green initiative of the government. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.ramsonsprojects.

at https://in.mpms.mufg.com. Manner of casting vote(s) through Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all resolutions set out in the Notice of the AGM. The facility of remote e-voting shall be available before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM, and for this purpose, the Company has appointed its RTA i.e. MUFG Intime India Private Limited (MIIPL) for facilitating voting through electronic means. The Company has availed itself of the remote e-voting services provided by MIIPL.

com and on the website of the Stock Exchange i.e., BSE limited at www.bseindia.com and on the

website of Company's Registrar and Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited (MIIPL)

The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-voting | June 16, 2025, from 9.00 A.M. onwards June 18, 2025, till 5.00 P.M. **End of remote e-Voting**

The remote e-Voting module shall be disabled by MIIPL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time; The Cut-off date for the purpose of ascertaining Members who are eligible to cast their vote through e-voting and voting at the AGM through e-voting is June 12, 2025.

In case members have not registered / updated their PAN, Mobile No., Email address or Bank account details with the Company / RTA / DPs may follow the process detailed below:

Kindly fill up ISR-1 for registering / updating the PAN and/or KYC details including present postal address, mobile no. Email address and Bank account details. Kindly fil ISR-2 for updating the signatures. The formats of ISR forms are available on the website of the Company as well as on the RTA. For registering / updating the PAN and/or KYC details including present Demat Holding postal address, mobile no. Email address and Bank account details, kindly contact your DPs and update the same.

poll through remote e-voting during the Meeting and the Members attending the Meeting through VC or OVAM, who have not already casted their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right to vote during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners

The facility of e-voting system shall also be made available for the purpose of conducting the

as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before / during

Any person who becomes member of the Company after sending of the notice of AGM but before the cut-off date may obtain the User Id and password by sending a request at request at enotices@ in.mpms.mufg.com or corprelations@ramsonsprojects.com. Members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend

the Meeting electronically but shall not be entitled to vote again. If any member of the Company is facing any issue while logging in or connecting to the e-voting facility, before and during the Meeting, they may write or contact to MIIPL to instameet@in.mpms.

mufg.co.in or contact on: - 022-49186175 or at Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1, Block Near Savitri Market, Janakpuri New Delhi 110058, to get the redressal. Manner of Registering and updating email addresses: Members may register / update their email id with the Company/ RTA/ Depository by making a

request at corprelations@ramsonsprojects.com. While sending the request, Members are requested to keep the subject as 'Update/ Register the Email ID - (mention DP Id/Client ID/Folio No.)' and also requested to send their self-certified copy of Pan Card. Shareholders/ Members are requested to send the request for the same before the book closure to allow the company/ RTA to do the needful.

Book Closure:

Date: May 22, 2025

Place: Gurugram, Haryana

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 13, 2025, to June 19, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 31st AGM of the Company for the financial year 2024-25.

> By the order of the Board of Directors **Ramsons Projects Limited**

Ashwarya Maheshwari Company Secretary & Compliance Officer

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

♦ FINANCIAL EXPRESS

New Delhi

epaper.financialexpress.com

ऋण वसली अधिकरण-।, दिल्ली

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 औए. 172/2024 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाआवेदक

मैसर्स शिवम हैण्डलूम इंडस्ट्रीजप्रतिवादी

(1) मैसर्स शिवम हैण्डलूम इंडस्ट्रीज इसके मालिक श्री चन्दर प्रकाश के माध्यम से बी-225. गली नं.3. सोनिया विहार, दिल्ली-110094.

इस पर भीः मैसर्स शिवम हैण्डलूम इंडस्ट्रीज

इसके मालिक श्री चन्दर प्रकाश के माध्यम से वी—565 / 1, अरविन्द मोहल्ला चौधरी फते सिंह मार्ग, घोंडा, दिल्ली—110053. (2) श्री चन्दर प्रकाश

मकान नं.89, गली नं.8, बालाजी टेम्पल्स, सभा पुर, उत्तर पूर्वी दिल्ली--110049. इस पर भी: श्री चन्दर प्रकाश मालिक मैसर्स शिवम हैण्डल्म इंडस्टीज, प्लॉट नं.40 एवं 41 खसरा नम्बर 854, अमन सिटी ग्राम मीरपुर हिंदू परगना तहसील लोनी गाजियाबाद, उ०प्र0-201102.

(3) सीमा बी-225 , गली नं. 3, सोनिया विहार, दिल्ली-110094.

चूँकि उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध **रु.70,23,426/- (सत्तर लाख तेईस हजार चार सौ छब्बीस रूपये मात्र)** की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको 06.10.2025 को प्रातः 10:30 **बजे एलडी रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। **(विस्तृत विवरणों** के लिए डीआरटी की वेबसाइट: www.etribunal.gov.in फोन नं. 011-23748473 पर सम्पर्क करें)। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।

समी मामलों को विडियों कॉन्क्रेंसिंग के माध्यम से लिया जा रहा है और इसके प्रयोजन हेतु:-

(1) सभी एडवोकेट्स / लिटिगेंट्स को "सिस्को वेबैक्स" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड

(2) "मीटिंग आईडी" एवं "पासवर्ड" अगली सुनवाई की तिथि के लिए रिजस्ट्रार / वसूली अधिकारी-1 और वसूली अधिकारी-2 द्वारा क्वा मामलों में डीआरटी आधिकारिक पोर्टल "drt.gov.in" पर पब्लिक नोटिस हँड के अंतर्गत सुनवाई की एक तिथि पूर्व

(3) किसी भी आपातकालीन स्थिति में एडवोकेट्स / लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन नं. 011-23748473 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

07 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया। प्रतियादी अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित फोन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है। एलडी. रजिस्ट्रार, डीआरटी–1, नई दिल्ली, फोन नं.: 011-23748473

For All Advertisement Boo

0120 - 66512

इस अधिकरण के आदेशानुसार सहायक रजिस्ट्रार

M UJJIVAN SMALL FINANCE BANK क्षेत्रीय कार्यालय:- जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (यपी) शाखाः सांगानेर (राजस्थान)

वापसी

ई-नीलामी/बिक्री नोटिस ^{1ह} फाइनाशयल एक्सप्रस आर जनसत्ता

22.04.2025 को प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री नोटिस का संदर्भ है, ई-नीलामी 28.05.2025 को निर्धारित है। इस संबंध में, बैंक ने श्री नदीम पुत्र चांद मोहम्मद और श्रीमती हिना कुरैशी पत्नी नदीम के खाते में रॉयल नगर, लालवास, रामगढ़ रोड, तहसील और जिला जयपर, राजस्थान में स्थित 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्लॉट नंबर 134 की नीलामी बिक्री वापस ले ली है। आम जनता को तदनुसार सूचित किया जाता है। शेष संपत्तियों के लिए नियम और शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी।

तिथिः 26.05.2025 प्राधिकृत अधिकारी

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

रामसंस प्रोजेक्ट्स लिभिटेड

सीआईएनः L74899DL1994PLC063708 रिज. कार्यालयः २०१, एम्पायर अपार्टमेंट, प्रथम तल, सुल्तानपुर, गदाईपुर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110030, भारत कॉर्प. कार्यालयः युनिट 501, 5वीं मंजिल, एसएएस टॉवर, टॉवर बी, सेक्टर-38, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, भारत

फोन नंबर 0124-4679000, ईमेलः corprelations@ramsonsprojects.com वेबसाइटः www.ramsonsprojects.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोर्टिग सूचना और बुक क्लोजर

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') (जिसे आगे सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा जाएगा) द्वारा 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य–श्रव्य साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण' के संबंध में जारी परिपन्न संख्या सामान्य परिपन्न संख्या ०९/२०२४ दिनांक १९ सितंबर, २०२४ के साथ पठित परिपन्न २०/२०२० दिनांक 5 मई, 2020, संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के अनुपालन में रामसंस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 19 जून, 2025 को दोपहर 12.00 बजे, केवल दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') सुविधा / अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे या https://instameet.in.mpms.mufg.com/ पर लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, साथ ही बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज कंपनी के उन सभी सदस्यों को 23 मई. 2025 को भेजे जाएंगे. जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकत हैं। एजीएम की सचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के माध्यम से और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढाने के लिए समाप्त कर दिया गया है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ramsonsprojects.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमआईआईपीएल) की वेबसाइट https://in.mpms.mufg.com पर भी उपलब्ध होंगे।

रिमोट ई-वोर्टिंग के जरिए वोट डालने का तरीकाः

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 एवं समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में साथ ही, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस-2') और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करके प्रसन्न है, जिससे वे एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। एजीएम में किए जाने वाले कार्यवाही के संबंध में एजीएम से पहले और उसके दौरान रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए अपने आरटीए यानी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमआईआईपीएल) को नियुक्त किया है। कंपनी ने एमआईआईपीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाया है।

एजीएम की सूचना में रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

ए रिमोट ई—वोटिंग सविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

-1	G. Telle & alle Lighted The Hellett Gall	जनाज के दारा । उत्तर हो ।।					
	10	16 जून, 2025 को सुबह 9 बजे से					
ı	रिमोट ई-वोर्टिंग की समाप्ति	18 जून, 2025 को शाम 5 बजे तक					

बी. इसके बाद वोटिंग के लिए एमआईआईपीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमित नहीं दी जाएगीय ई-वोटिंग के जिए वोट डालने और एजीएम में ई-वोटिंग के जरिए वोट करने के पात्र सदस्यों का पता लगाने के उद्देश्य से कट-ऑफ तारीख

सी. यदि सदस्यों ने कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ अपना पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल पता या बैंक खाता विवरण पंजीकृत/ अपडेट नहीं किया है, तो वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

भौतिक कृपया वर्तमान डाक पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और बैंक खाता विवरण सहित पैन और / या केवाईसी विवरण **हिन्डिंग** पिजीकृत / अपडेट करने के लिए आईएसआर—1 भरें। हस्ताक्षर अपडेट करने के लिए कृपया आईएसआर—2 भरें। आईएसआर फॉर्म के प्रारूप कंपनी की वेबसाइट के साथ–साथ आरटीए पर भी उपलब्ध हैं। वर्तमान डाक पता. मोबाइल नंबर. ईमेल पता और बैंक खाता विवरण सहित पैन और /या केवाईसी विवरण पंजीकत होल्डिंग / अपडेट करने के लिए, कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और उसे अपडेट करें।

डी. बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कराने के उद्देश्य से ई-वोटिंग प्रणाली की सविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी या ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक के दौरान अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

ई. वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम से पहले / उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

एफ. कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद लेकिन कट ऑफ तारीख से पहले कंपनी का सदस्य बनता है, वह enotices@in.mpms.mufg.com या corprelations@ramsonsprojects.com पर अन्रोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

जी. जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

एच. यदि कंपनी के किसी सदस्य को बैठक से पहले और बैठक के दौरान लॉग इन करने या ई–वोटिंग सुविधा से जुड़ने में कोई समस्या आ रही है, तो वे निवारण के लिए एमआईआईपीएल को instameet@in.mpms.mufg.co.in पर लिख सकते हैं या – 022–49186175 या नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी–1, ब्लॉक सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी नई दिल्ली 110058 पर संपर्क कर सकते हैं।

ईमेल पते पंजीकृत करने और अपडेट करने का तरीकाः

सदस्य corprelations@ramsonsprojects.com पर अनुरोध करके कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं। अनुरोध भेजते समय, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विषय को 'ईमेल आईडी अपडेट/ पंजीकृत करें दू (डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर का उल्लेख करें)' रखें और साथ ही अपने पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति भी भेजने का अनुरोध किया जाता है। शेयरधारकों / सदस्यों से अनुरोध है कि वे बुक क्लोजर से पहले इसके लिए अनुरोध भेजें ताकि कंपनी/आरटीए को आवश्यक कार्य करने का मौका मिल सके।

इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की 31वीं एजीएम के उद्देश्य से 13 जून, 2025 से 19 जून, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार रामसंस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

दिनांकः 22 मई, 2025 ऐश्वर्या माहेश्वरी स्थानः ग्रूजाम, हरियाणा

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)

Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

PATPARGANJ: CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR**: AD BRIDGE COMMU-NICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR:** PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST JANAKPURI: TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206. 25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-PURA: GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI** NAGAR: MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, MOTI NAGAR: UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR: POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI** : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL CHANDNI CHOWK: RAMNIWAS ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, CONNAUGHT PLACE: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT: SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph. 9818505505, 27458589, PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION): MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, **PITAMPURA** (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR: A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR: POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF SARAI: TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, GURGAON: AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, NOIDA (SEC. 29): RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65): SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58): JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA): TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES) FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact : ROHIT JOSHI 9818505947, ABHINAV GUPTA 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail: delhi.classifieds@expressindia.com



स्थानः ग्रटर नोएडा

दिनांक: 26 मई, 2025

रियल ग्रोथ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में- रियल ग्रोथ कमर्शियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड)

सीआईएन: L70109DL1995PLC064254 ब्हि, पंजिकृत कार्यालयः जी -01, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. एसयू, एलएससी बी-ब्लॉक, आरजीसीसी, लॉरेंस रोड दिल्ली 110035

ई-मेलः info@realgrowth.in, वेबसाइटः www.realgrowth.co.in, फोन, 9560096060

(ईपीएस को छोडकर रुपये लाख में)

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

		सः	माप्त तिमाही के वि	समाप्त वर्ष के लिए		
क्रम सं.	विवरण	मार्च 31, 2025	दिसं. 31, 2024	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
		लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	702.46	-		860.86	-
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	184.38	42.21	(38.05)	173.42	(132.39)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों से बाद)	835.25	42.21	(38.05)	824.29	(132.39)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों से बाद)	738.63	42.21	(18.36)	727.64	(112.70)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु) (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	738.63	42.21	(18.36)	727.64	(112.70)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिक्ति आरक्षित)	-	-		-	17.05
8.	आय प्रति शेयर (रू 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए)					
	1) मूल :	18.47	1.06	(0.46)	18.19	(2.82)
	2) तरल :	18.47	1.06	(0.46)	18.19	(2.82)

टिप्पणी: 1) उपरोक्त 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जो सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम. 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.realgrowth.co.in पर उपलब्ध है।

> निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से रियल ग्रोथ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में- रियल ग्रोथ कमर्शियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड)

राजेश गोयल

(निदेशक) डीआईएन: 01339614

THE BUSINESS DAILY

♦ FINANCIAL EXPRESS

FOR DAILY BUSINESS



ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेन्टरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ०प्र0–226010 रजिस्टर्ड ऑफिसः "त्रिशूल"—वृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006 जबिक, अधोहस्ताक्षरी, **ऐक्सिस बैंक लि0** के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। निम्न वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्ते शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक कब्जा ले लिया है। निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि निम्न सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा निम्न सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई भी सौदा नीचे वर्णित बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि सहित एक्सिस बैंक लि. के बंधक के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह—ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार(रो)ं / गारन्टर(रों) के नाम एवं पता	बंधक / प्रभारित सम्पत्ति(यों) का विवरण	मांग सूचना नोटिस की ति	सांकेतिक कब्ज तिथि	मांग नोटिस के अनु सार बकाया राशि	
शादन (सह—ऋणी) पुत्र श्री अनवर, दोनो का पता— मकान नं0 215, सादा, 2 सदत, तहसील जलेसर, जिला—एटा—207302, 3. सह—ऋणीः श्री मोहम्मद अदनान पुत्र श्री अनवर, पता—1. मकान नं0 215, सादा, 2 सादात तहसील जलेसर, जिला—एटा—207302, (बंधक सम्पत्ति—1) स्टर्लिंग होम्स फ्लैट नं0 411 चतुर्थ तल ग्राम—सिकन्दरपुर, छेरत परगना एवं तहसील कोल, जिला—अलीगढ़ 202001 ,पता—3. (बंधक सम्पत्ति—2) स्टर्लिंग होम्स फेस—2 फ्लैट नं0 413 चतुर्थ तल ग्राम—सिकन्दरपुर, छेरत परगना एवं तहसील कोल,जिला—अलीगढ़ 202001, 4. श्रीमती	सम्पत्ति—1 भूमि/सम्पत्ति (आवासीय/व्यवसायिक) स्थित स्टर्लिंग होम्स फ्लैट नं० 411 चतुर्थिय तल ग्राम—सिकन्दरपुर, छेरत परगना एवं तहसील कोल, जिला—अलीगढ़, एरिया—123.09 वर्ग मी०, सम्पत्ति मोहम्म्द अदनान के नाम, चौहद्दी—पूर्व—सामान्य मार्ग, पश्चिम—खुला आकाश, उत्तर—खुला आकाश, दक्षिण—फ्लैट नं० 410 सम्पत्ति—2 भूमि/सम्पत्ति (आवासीय/व्यवसायिक) स्थित स्टर्लिंग होम्स फेस—2 फ्लैट नं० 413 चतुर्थिय तल ग्राम—सिकन्दरपुर, छेरत परगना एवं तहसील कोल, जिला—अलीगढ़, एरिया—132.38 वर्ग मी०, सम्पत्ति मोहम्म्द अदनान के नाम, चौहद्दी—पूर्व—सामान्य मार्ग, पश्चिम—सड़क भूतल सामान्य मार्ग 20 फुट चौड़ा, उत्तर—फ्लैट नं० 414, दक्षिण—फ्लैट नं० 412	20.01.2025	21.05.2025	रू० 74,23,030.02/- & 37,241.47/- दि. 17.01.2025 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	
दिनांकः 27.05.2025 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0					



कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

किरिकेट पंजीकृत, पताः 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई 400051 शाखा कार्यालयः चौथी मंजिल, एडमास प्लाजा, 166/16, सीएसटी रोड, कोलिवेरी विलेज,

कुंची कुर्वे नगर, कलिना सांताकूज (ई), मुंबई - 400 0981

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) का प्राधिकृत अधिकारी है। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनयम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (उक्त उधारकर्ता(ओं)) को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपर्युक्त के संबंध में, उक्त उधारकर्ता(ओं) को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियों को, उक्त मांग नोटिस में विस्तृत रूप से आगे ब्याज के साथ, नीचे उल्लिखित तारीख से भुगतान और /या वसूली की तारीख तक केएमबीएल को भुगतान करें, जो कि उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजा / लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है। ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को केएमबीएल द्वारा गिरवी रखा गया है उक्त उधारकर्ता(ओं) का नाम क्रमशः है।

	ऋणी/सह-ऋणी और गारंटर के नाम ऋण खाता संख्या के साथ	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि	बंधक संपत्ति का विवरण
	ऋण खाता संख्या LAP18572090 1. मेसर्स पुनीत कार्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री पुनीत मिश्रा के माध्यम से (उधारकता/बंधककर्ता) 2. श्री पुनीत सुभाष मिश्रा सह—उधारकर्ता/बंधककर्ता) 3. श्री विमल प्रेमचंद मिश्रा (सह—उधारकर्ता) सभी का पता, निवासी — 12/80/—सी, 14/25 बी—6, पियारिया पोखरी, जैतपुरा, अंधरापुल के पास, वाराणसी, उत्तर प्रदेश— 221002. सभी का कार्यालय स्थान संख्या जी—58ए, भूतल पर, 32वीं गैलरी में, सेक्टर 15, भाग—II, राजस्व संपदा गांव सिलोखेड़ा, तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम, हिरयाणा—122001 में स्थित है। इसके साथ ही पता से क्र. 2: बिल्डिंग नंबर 52, पलैट नंबर 1389, एम.आई.जी. कॉलोनी, आदर्श नगर वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र — 400030। इसके साथ ही पता से क्र. 3 2/191, नमक बाजार, रामनगर, वाराणसी, भीटी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश— 221008 पर भी।	डिमांड नोटिस की तिथिः 16 मई 2025 रु. 66,40,471.79 (रुपये छियासठ लाख चालीस हजार चार सौ इकहत्तर और पैसा उनासी मात्र) 16.05. 2025 तक और एनपीए की तिथिः 12.05.2025	यूनिट नंबर जी—58ए का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, ग्राउंड फ्लोर पर, 32वीं गैलरी में स्थित सेक्टर 15 पार्ट ।। में, राजस्व संपदा में, गांव सिलोखेड़ा तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम, हरियाणा— 122001.' 139.50 वर्ग फीट सुपर एरिया/बिक्री योग्य क्षेत्र।
1		Andre orlow A or	- 12(1) ch

यदि उक्त उधारकर्ता केएमबीएल को पूर्वोक्त भूगतान करने में विफल रहते हैं, तो केएमबीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर। उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत केएमबीएल की पूर्व लिखित सहमित के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत दिए गए कारावास औरध्या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः मुंबई दिनांकः 27.05.2025

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी कोटक महिंदा बैंक लिमिटेड के लिए

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF

("ADARSH"/ "AML" / "TARGET COMPANY"/"TC") (Corporate Identification No. L51109WB1992PLC055082) Registered Office: 8A & 8B, Satyam Towers, 3, Alipore Road, Kolkata — 700 027; Corporate Office: Plot No 23 D Sector A Sanwer Road Industrial Area, Near Parle G Biscuit Factory, Industrial Estate (Indore), Indore, Indore, Madhya Pradesh, India, 452015; Phone No.: +91-9109197950; Email id: adarshmercantile@gmail.com/compliance@saimachinetools.com; Website: www.adarshmercantile.in

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Ajay

Jaiswal (Acquirer-1), Mr. Vishal Jaiswal (Acquirer-2), Mr. Ashok Jaiswal (Acquirer-3), Mrs. Poonam Jaiswal (Acquirer-4), Mrs. Niharika Jaiswal (Acquirer-5) and Mrs. Shikha Jaiswal (Acquirer-6) (Acquirer-1, Acquirer-2, Acquirer-3, Acquirer-4, Acquirer-5 and Acquirer-6 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2025/13867/1 dated May 22, 2025 in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 42,95,200 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the existing equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkaal -Marathi Daily (Mumbai edition); Arthik Lipi - Bangali Daily - (Kolkata edition) on 10th February, 2025.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:

 Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below: Original Date Original Day Revised Date Revised Day

ACTIVITY	Original Date	Uriginai Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	06.02.2025	Thursday	06.02.2025	Thursday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	10.02.2025	Monday	10.02.2025	Monday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	10.02.2025	Monday	10.02.2025	Monday
Last date of filling draft letter of offer with SEBI	17.02.2025	Monday	17.02.2025	Monday
Last date for a Competing offer	05.03.2025	Wednesday	05.03.2025	Wednesday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	12.03.2025	Wednesday	22.05.2025	Thursday
Identified date*	17.03.2025	Monday	26.05.2025	Monday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	24.03.2025	Monday	02.06.2025	Monday
Last date for revising the Offer Price	27.03.2025	Thursday	05.06.2025	Thursday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	27.03.2025	Thursday	05.06.2025	Thursday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	28.03.2025	Friday	06.06.2025	Friday
Date of Opening of the Offer	01.04.2025	Tuesday	09.06.2025	Monday
Date of Closure of the Offer	16.04.2025	Wednesday	20.06.2025	Friday
Post Offer Advertisement	24.04.2025	Thursday	27.06.2025	Friday
Payment of consideration for the acquired shares	02.05.2025	Friday	04.07.2025	Friday
Final report from Merchant Banker	09.05.2025	Friday	11.07.2025	Friday

Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirers, sellers) erstwhile promoters, Selling Company and persons deemed to be acting in concert) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

14,00,000 equity shares acquired by Acquirer-1, 12,10,000 equity shares acquired by Acquirer-2 and 80,000 equity shares. acquired by Acquirer-4 on 18" March, 2025 pursuant to share purchase agreement dated 06" February, 2025 in compliance with Regulation 22(2) of SEBI SAST Regulations, 2011.

Acquirers have appointed themselves and their representatives i.e. Ajay Jaiswal as Managing Director, Vishal Jaiswal as Whole Time Director, Ashok Jaiswal as Non-Executive Director & Non-Independent Director and nominated Yogesh Arvindbhai Bhuva as Non- Executive & Independent Director, Deepak Vyas as Non- Executive & Independent Director and Mitwa Nayan Shah as Non-Executive & Independent Director) on Board of Target Company vide board meeting dated March

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the

same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF. ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED

Tel No. +91-22-41204837/49735078

804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.

Email id: navigant@navigantcorp.com Website: www.navigantcorp.com Navigant SEBI Registration No: INM000012243 Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai Date: May 26, 2025